

वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020

महाविद्यालय इतिहास शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय, खरखौदा के भवन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कर कमलों द्वारा, श्रीमती गीता भुक्कल तत्कालीन शिक्षा मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता एवं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद लोक सभा रोहतक, श्री जितेंद्र मलिक सांसद, लोकसभा सोनीपत, श्री राव दान सिंह, तत्कालीन मुख्य संसदीय सचिव, शिक्षा विभाग हरियाणा व श्री जयवीर सिंह तत्कालीन मुख्य संसदीय सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 3 फरवरी, 2013 रविवार को संपन्न हुआ।

भवन निर्माण

उन्नतशैली शिक्षा समिति खरखौदा की देखरेख में महाविद्यालय की दो मंजिला भवन का भव्य निर्माण करवाया गया। इस भवन में प्राचार्य कार्यालय, स्टाफ रूम, कार्यालय, दो लघु सेमिनार कक्ष, शिक्षण कक्ष, महिला प्रकोष्ठ कक्ष, विशाल बहुउद्देशीय कक्ष, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, भाषा लैब, दो भूगोल लैब, दो मनोविज्ञान लैब, एक रक्षा अध्ययन लैब, एक स्मार्ट कक्ष, व छात्र-छात्राओं के कॉमन रूम सहित कुल 22 कमरे हैं।

महाविद्यालय परिवार

हमारे महाविद्यालय में 18 प्राध्यापक नियमित एवं तीन एक्सटेंशन लेक्चरर कार्यरत हैं। महाविद्यालय में 2 लिपिक एक लैब अटेंडेंट, एक सुख सहायक, दो सफाई कर्मचारी, दो माली, दो चौकीदार, एक रेस्टोरर अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार महाविद्यालय की कंप्यूटर लैब के लिए एक कंप्यूटर अनुदेशक व एक लैब अटेंडेंट अनुबंध पर नियुक्त हैं।

विद्यार्थी संख्या एवं संकाय

महाविद्यालय के सत्र 2019-20 में कला संकाय में विद्यार्थियों की एक यूनिट में वृद्धि हुई है। इस सत्र में विद्यार्थियों की कुल संख्या 494 है। इनमें से 236 विद्यार्थी कला संकाय पास कोर्स प्रथम वर्ष, 105 विद्यार्थी बी.ए. द्वितीय वर्ष व 102 विद्यार्थी बी.ए. तृतीय वर्ष तथा 10 विद्यार्थी वाणिज्य संकाय बीकॉम प्रथम वर्ष, 15 विद्यार्थी बीकॉम द्वितीय वर्ष व 17 विद्यार्थी बीकॉम तृतीय वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

वार्षिक परीक्षा देने वाले अंतिम वर्ष के छात्रों की संख्या कोर्स अनुसार - बी.ए. तृतीय वर्ष - 102 व बी.कॉम. तृतीय वर्ष - 17 .

विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्ति

उत्तर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा समय पर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय योग्यता पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति से संबंधित विकलांग तथा छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विशेष उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) तीनों वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कंसोलिडेटेड स्टीपेंड स्कीम घोषित की गई है।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष महाविद्यालय के अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों को 2000 रुपये प्रति छात्र पुस्तकों के लिए तथा 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से प्रति छात्र को स्टीपेंड फंड की एक वर्ष की राशि वितरित की जा रही है।

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से आधार नंबर के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है।

छात्राएं अंडर ग्रेजुएट मेरिट छात्रवृत्ति के अंतर्गत हरियाणा सरकार से प्राप्त राशि - 12वीं कक्षा में टॉपर महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त सात छात्राओं को प्रति छात्रा 3000 रूपये छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

मेरिट प्रोत्साहन छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार से प्राप्त हुई राशि को बी.ए., बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा में महाविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 5000, 3000, व 2000 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

EARN WHILE YOU LEARN के अंतर्गत इस वर्ष 12 विद्यार्थियों को महाविद्यालय के पुस्तकालय, कार्यालय, भूगोल लैब, मनोविज्ञान लैब, रक्षा अध्ययन व कंप्यूटर लैब में कार्य करने के लिए सरकार के आदेशों के अनुरूप प्रति घंटा सौ रूपये प्रदान किए गए।

क्रीडा जगत

1. महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र विशाल ने कलिंगा विश्वविद्यालय, कटक, उड़ीसा द्वारा 22 फरवरी से 1 मार्च, 2020 तक आयोजित "खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स" में जूडो प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

2 विशाल ने सी. एस. जे. विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में 100 किलो भारवर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

3 महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा 17 नवंबर 2019 को आयोजित इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में विशाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

4 विशाल ने सिरसा में 8 से 10 नवंबर 2019 में आयोजित खेल महाकुंभ में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

5 विशाल ने 19 नवंबर, 2019 को यमुनानगर में आयोजित राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

6 महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र रवि ने कलिंगा विश्वविद्यालय, कटक, उड़ीसा में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में हॉकी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

7 जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा 5 नवंबर से 11 नवंबर 2019 को आयोजित नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट में महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र राहुल व रवि ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की हॉकी टीम से खेलते हुए प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

8 महाविद्यालय की बी.ए. द्वितीय वर्ष के छात्र राहुल ने कलिंगा विश्वविद्यालय, कटक, उड़ीसा में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में हॉकी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

9 महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र सूरज ने कलिंगा विश्वविद्यालय, कटक, उड़ीसा में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में 10000 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया।

10 सूरज ने इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में महाविद्यालय की ओर से प्रतिभागिता की।

11 सूरज ने इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स टूर्नामेंट 2019 में रजत पदक प्राप्त किया।

12 महाविद्यालय ने डी.ए.बी.(W) यमुनानगर में 19 से 20 सितंबर, 2019 को आयोजित स्टेट इंटर कॉलेज जूडो चैंपियनशिप जीती।

13 महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र साहिल ने यमुनानगर में आयोजित राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज जूडो टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

14 साहिल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज जूडो टूर्नामेंट में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

15 महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र सतीश चौहान ने भिवानी में आयोजित सीनियर स्टेट इंटर कॉलेज चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

16 महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र अरुण ने 4 से 5 मार्च 2020 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित इंटर कॉलेज वूशू टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

17 महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र शिवेंद्र ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में वूशू में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

18 महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र सचिन ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में वूशू प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

19 महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र सुमित ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में वूशू प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

20 महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र ललित ने 85 किलोग्राम भार वर्ग में वूशू प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

21 महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र विशाल ने 98 किलोग्राम भार वर्ग में ग्रेपलिंग (no gi or gi) प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

22 महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र नितिन कौशिक ने इंटर कॉलेज पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान व वेटलिफ्टिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

23 महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र गौरव ने ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में 70 किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

24 महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र मनीष ने इंटर कॉलेज ग्रेपलिंग (जी आई) प्रतियोगिता में 74 किलोग्राम भार वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

25 महाविद्यालय के छात्र सचिन सैनी ने इंटर कॉलेज एथलेटिक्स में पोल वोल्ट में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

26 महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र राहुल ने पटियाला पंजाब में 13 मार्च से 17 मार्च, 2020 को आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रतिभागिता की व द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

27 शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय खरखोदा ने गवर्नमेंट कॉलेज हेली मंडी गुरुग्राम द्वारा 18 से 20 फरवरी 2020 को आयोजित राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

सांस्कृतिक कमेटी के द्वारा प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन 4-5 अक्टूबर, 2019 को किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे- पाककला, हिंदी व अंग्रेजी कवितापाठ, गायन प्रतियोगिता, हरियाणवी कविता, गायन, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण आदि प्रतियोगिताओं में भाग लिया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा युवा महोत्सव सोनीपत में भी भाग लिया गया। इसका आयोजन टीकाराम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत द्वारा 4-6 नवंबर, 2019 को किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे- संगीत, भजन, पोस्टर मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, लोक नाटक, कविता, गायन, चित्रकारी, कार्टून, एकल नृत्य, चित्र बनाना, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताओं में जोश के साथ भाग लिया। जिसमें पोस्टर मेकिंग और क्ले मॉडलिंग में महाविद्यालय के छात्रों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

रणजीत और आशीष ने क्रमशः उपरोक्त स्थान प्राप्त किए और इन्हीं 2 छात्रों ने 13 नवंबर से 15 नवंबर 2019 को आयोजित इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में महाविद्यालय की ओर से प्रतिभागिता की।

महाविद्यालय में 10-11 जनवरी, 2020 को दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। महाविद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम रस तरंगिणी नाम से जाना जाता है।

रस तरंगिणी में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अनेक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन द्वारा विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के नजदीक लाने का प्रयास किया गया। प्रदेश की संस्कृति पर आधारित ललित कला की दस प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी यथा - बीजना बनाना, फुलझड़ी बनाना, मांडना, मीठी बनाना, सांडी बनाना, कढ़ाई, मेहंदी, पाककला, पीढा भरना, खिलौने बनाना। इसके अतिरिक्त गायन प्रतियोगिता, नाटक, हास्य नाटिका व एकल नृत्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ सरोज अहलावत पूर्व प्राचार्य मुख्य अतिथि रही व उन्होंने ही विजेताओं को पुरस्कृत भी किया।

राष्ट्रीय सेवा योजना

हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई है जिसका उद्देश्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों में सेवा, त्याग, कर्तव्य, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति एवं परोपकार जैसे सदगुणों का विकास करना है। कार्यरत यूनिट की प्रभारी डॉ योगेश बाजवान है। सत्र 2019-20 के दौरान स्वयं सेवकों ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। जैसे पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस समारोह, मतदान जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस व जेंडर सेन्सिटाइजेशन इत्यादि। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की समाज के प्रति कर्तव्य भावना को जागरूक करना था। 24 सितंबर, 2019 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा आयोजित डिक्लेमेशन प्रतियोगिता 'राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका' विषय पर भी स्वयंसेवक प्रतिभागी रहे। 2 अक्टूबर, 2019 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा आयोजित गांधी जी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भाषण, मेहंदी, पोस्टर, पेंटिंग प्रतियोगिता में 5 स्वयं सेवकों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 12 नवंबर, 2019 को एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की कार्यकारी प्राचार्य श्रीमती किरण सरोहा के सानिध्य में 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन सैदपुर गांव में किया गया। जिसमें सहायक प्रोफेसर राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डॉ ज्योतिराज के द्वारा विस्तार व्याख्यान दिया गया। उन्होंने स्वयं सेवकों को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, मतदाताओं को मत प्रयोग करने के लिए विस्तृत जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीरजा सांगवान की अध्यक्षता में 6 मार्च 2020 को रक्तदान शिविर का आयोजन एनएसएस की देखरेख में किया गया।

प्लेसमेंट सेल

13 दिसंबर, 2019 को शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय खरखोदा के प्लेसमेंट सेल द्वारा उद्यमशीलता विषय पर एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन कराया गया। जिसमें डॉक्टर ईश्वर मित्तल सहायक प्राध्यापक (आई एम ए आर) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने अपने ज्ञान के द्वारा छात्रों का ज्ञान वर्धन किया व उन्हें जीवन में उद्यमशीलता की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

21-24 जनवरी, 2020 तक महाविद्यालय के 12 छात्रों ने तीन दिवसीय अभ्यास व एक दिवसीय प्लेसमेंट मेले में हिस्सा लिया। इस प्लेसमेंट फेयर का आयोजन पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक द्वारा किया गया था।

11 फरवरी, 2020 को महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के 3 छात्रों ने ब्रिटिश टेलीकॉम द्वारा जी.वी. एम.आई.टी.एम. में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में प्रतिभागिता की।

12 फरवरी, 2020 को महाविद्यालय में व्यक्तिगत विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें डॉ अनुप्रिया पुनिया सहायक प्राध्यापक राजकीय महिला महाविद्यालय मुरथल ने छात्र छात्राओं को व्यक्तिगत विकास के विषय में विस्तार पूर्वक समझाया।

18 फरवरी, 2020 को महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के 3 छात्रों ने अमेज़न द्वारा जी.वी. एम.आई.टी.एम. सोनीपत में आयोजित एक दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव में प्रतिभागिता की।

महिला प्रकोष्ठ

सितंबर, 2019 में महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ प्रभाग द्वारा 1 से 30 सितंबर 2019 को पोषण माह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर 30 सितंबर को डॉ श्री भगवान, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फिरोजपुर ने एक विस्तार व्याख्यान दिया, जिसमें छात्राओं को हाइजीन, हेल्थ और न्यूट्रिशन का महत्व समझाया गया।

16 अक्टूबर, 2019 को महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ प्रभाग द्वारा मेहंदी कंपटीशन का आयोजन किया गया।

8 नवंबर, 2019 को महिला प्रकोष्ठ प्रभाग द्वारा छात्राओं को महिला सशक्तिकरण से संबंधित फिल्म दिखाई गई।

27 फरवरी, 2020 महिला प्रकोष्ठ प्रभाग द्वारा छात्राओं के लिए 30 घंटे का ब्यूटी एवं वेलनेस कार्यशाला का आयोजन कराया गया।

यूथ रेड क्रॉस

यूथ रेड क्रॉस के 10 स्वयंसेवकों व काउंसलर श्रीमती मधुलता ने एक दिवसीय राज्य स्तरीय जागरूकता शिविर जीवीएम कॉलेज सोनीपत में हिस्सा लिया। जिसमें एक विद्यार्थी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सात स्वयंसेवकों ने 15 अक्टूबर, 2019 को राज्य स्तरीय स्वीप कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 10 विद्यार्थियों ने पांच दिवसीय यूथ रेड क्रॉस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया, जिसका आयोजन डीक्रस्ट मुरथल में किया गया। इसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में तृतीय व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही महाविद्यालय की टीम को बेस्ट टीम का खिताब मिला। महाविद्यालय में 6 मार्च, 2020 को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें यूथ रेडक्रॉस के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया।

शैक्षिक भ्रमण

श्रीमती गीता शर्मा की अगुवाई में महाविद्यालय की छात्राओं के लिए 15 से 17 दिसंबर, 2019 के दौरान एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत छात्राओं को कुरुक्षेत्र के पौराणिक स्थलों को दिखाया गया और जानकारी दी गई। इसके साथ ही छात्राओं को मोरनी की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग करने का अवसर भी मिला।

करियर काउंसलिंग एवं डेवलपमेंट सेल

महाविद्यालय में दिनांक 13 सितंबर 2019 को करियर काउंसलिंग एवं डेवलपमेंट सेल का उद्घाटन कार्यकारी प्राचार्य श्रीमती किरण सरोहा ने किया। इस प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ रश्मि सरोहा है व श्री दिनेश कुमार एवं श्रीमती गीता शर्मा इसके सदस्य हैं। इस प्रकोष्ठ के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

आर.टी.आई

महाविद्यालय में आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए श्रीमती किरण सरोहा सूचना अधिकारी एवं श्री संदीप सूचना क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी प्राचार्य श्रीमती नीरजा सांगवान है।

आइक्यूएसी IQAC

यूजीसी के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का गठन किया गया है जिसमें श्रीमती किरण सरोहा, श्रीमती किरण चौहान, श्री दिनेश कुमार एवं डॉ योगेश बाजवान शामिल हैं।

एनएएसी NAAC

हमारे महाविद्यालय में NAAC की कमेटी गठित की गई है। जिसकी प्रभारी डॉ रश्मि सरोहा, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान और सदस्य श्री विक्रम, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री भरत लाठर, प्राध्यापक, रक्षा अध्ययन व श्रीमती रजनीश कुमारी, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी है।

पुस्तकालय

पुस्तकालय विद्यार्थी तथा शिक्षकों के ज्ञानार्जन व आत्मविश्वास का सर्वोत्तम स्थान है। इसके महत्व एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में हर प्रकार की सुविधा से युक्त एक आधुनिक पुस्तकालय भवन है। जिसमें एक समय में लगभग 50 विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 2238 पुस्तकें हैं। आधुनिक युग प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा का युग है। इस द्येय को सामने रखते हुए समसामयिक घटनाओं की जानकारी व सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए पुस्तकालय में अंग्रेजी व हिंदी में 6 समाचारपत्र तथा 7 पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। पुस्तकालय पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत है व विद्यार्थियों के लिए ई- जनरल की सुविधा भी उपलब्ध है।

मतदाता पहचान पत्र

श्री दिनेश कुमार, सहायक प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा व श्रीमती किरण चौहान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग ने नोडल अधिकारी की हैसियत से 18 वर्ष पूर्ण कर चुके छात्र-छात्राओं की वोट बनवाने का कार्य सफलतापूर्वक किया।

विधि साक्षरता प्रकोष्ठ

महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न जिला स्तरीय विधि साक्षरता प्रकोष्ठ ने प्रतिभागिता की।

कंप्यूटर शिक्षा

हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एक कंप्यूटर लैब व एक लैंग्वेज लैब स्थापित है। कंप्यूटर लैब में 10 तथा लैंग्वेज लैब में 26 कंप्यूटर है। लैंग्वेज लैब में इंटरनेट सुविधा है। एमडीयू के तहत महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। श्री राजेश कुमार कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत है। इस शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को थ्योरी व प्रैक्टिकल देना अनिवार्य है। जिसके उपरांत A+ से D तक ग्रेडिंग भी जाती है। हमारे पास एक लैब में प्रोजेक्टर की सुविधा उपलब्ध है।

विभागीय गतिविधियां

अंग्रेजी विभाग

अंग्रेजी विभाग के सदस्यों, श्रीमती नमिता रानी, सहायक प्राध्यापक, डॉ रजनीश कुमारी, सहायक प्राध्यापक के सानिध्य में 4 जनवरी 2019 को एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ वीरेंद्र सिंह दहिया प्राचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय गोहाना रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के महत्व के बारे में बताया। विभाग द्वारा 27 जनवरी, 2020 को काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।

मनोविज्ञान विभाग

इस विभाग की अध्यक्ष गीता शर्मा, सहायक प्राध्यापक, डॉ रश्मि, सहायक प्राध्यापक व रेखा सहायक प्राध्यापक सदस्य हैं। महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सहायक प्रोफेसर सजनी देवी ने विद्यार्थियों को नकारात्मक विचारों को त्यागकर सकारात्मक विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कार्यकारी प्राचार्य श्रीमती किरन सरोहा ने विद्यार्थियों को कहा कि मानसिक रूप से सशक्त होना भी आवश्यक है। मनोविज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2020 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एन.के. चड्ढा और नवरत्न शर्मा ने अपने विषय की विस्तृत जानकारी भावी शोधकर्ताओं के साथ सांझा की। इस अवसर पर प्राचार्य श्रीमती नीरजा सांगवान ने भी मनोविज्ञान के महत्व को समझाया।

हिंदी विभाग

इस विभाग के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार व डॉ सुनीता इसकी सदस्य है। विभाग में हिंदी दिवस के अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। 13 सितंबर, 2019 को निबंध प्रतियोगिता और 14 सितंबर 2019 को भाषण प्रतियोगिता व काव्य पाठ का आयोजन किया गया। 10 जनवरी, 2020 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 21 फरवरी, 2020 को मातृभाषा दिवस मनाया गया जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य श्रीमती नीरजा सांगवान ने की।

रक्षा अध्ययन विभाग

इस विभाग की अध्यक्ष डॉ योगेश बाजवान है और भरत लाठर सदस्य हैं। रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा 15 फरवरी, 2020 को एक राज्यस्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य श्रीमती नीरजा सांगवान ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है।

वाणिज्य विभाग

इस विभाग की अध्यक्ष श्रीमती किरण चौहान है और श्री विक्रम, श्रीमती मधुलता सदस्य हैं इस विभाग द्वारा कॉमर्स क्रिएटिविटी का आयोजन 5 सितंबर, 2019 को किया गया। विभाग द्वारा बजट समीक्षा विषय पर भी प्रतियोगिता का आयोजन 11 फरवरी, 2020 को किया गया। बीकॉम अंतिम वर्ष के एक छात्र ने ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता में तृतीय और बीकॉम अंतिम वर्ष के छात्र ने ऑनलाइन ऑडियो प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

इतिहास विभाग

इस विभाग की अध्यक्ष श्रीमती किरन सरोहा है। इतिहास विभाग के तत्वावधान व प्राचार्य श्रीमती नीरजा सांगवान के संरक्षण में विभाग द्वारा अंतर महाविद्यालयी हरियाणा इतिहास प्रश्नोत्तरी और पौराणिक हरियाणवी वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 11 टीमों ने हिस्सा लिया।

गणित विभाग

इस विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी नागपाल है और डॉ मनदीप कुमारी सदस्य हैं। गणित विभाग के द्वारा 25 सितंबर, 2019 को मानसिक योग्यता परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र विकास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

भूगोल विभाग

इस विभाग के अध्यक्ष श्री जगवीर सिंह है और अनीता राणा सदस्य हैं। दो विद्यार्थियों की टीम ने रिवर राइम लैंड फॉर्म्स नामक मॉडल बनाओ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसका आयोजन राजकीय महाविद्यालय महम द्वारा किया गया।

राजनीति विज्ञान विभाग

इस विभाग की अध्यक्ष श्रीमती नीरा है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों ने संविधान और प्रस्तावना की शपथ ली। 5 अक्टूबर, 2019 को छात्र-छात्राओं को मतदान के लिए जागरूक किया। जिसमें चुनावी साक्षरता क्लब की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया।

व्यक्तिगत उपलब्धियां

श्रीमती किरन सरोहा सहायक प्राध्यापक इतिहास

आपने जी सी डब्ल्यू मुरथल में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में एंपावरिंग विमेन श्रो पॉलीटिकल पार्टिसिपेशन ए रियलिटी चेक विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

आपने शहीद दलवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय खरखोदा में 22 फरवरी, 2020 को मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में 'हिप्रोटिज्म भारत की देन' विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

आपने सत्र 2019-20 में हिपा गुरुग्राम द्वारा आयोजित दस दिवसीय प्रिंसिपल ट्रेनिंग में भाग लिया।

आपने एस डी कॉलेज अंबाला द्वारा paramarsh scheme on moocs and e - learning के अंतर्गत आयोजित पांच दिवसीय वर्कशॉप में भाग लिया।

आपने 9 नवंबर, 2019 को कन्या महाविद्यालय खरखोदा द्वारा आयोजित एक दिवसीय naac वर्कशॉप में भाग लिया।

श्रीमती किरण चौहान सहायक प्राध्यापक वाणिज्य

आपको 15 अगस्त, 2019 को एस डी एम खरखोदा से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

आपने 9 नवंबर, 2019 को आरएमके कॉलेज द्वारा आयोजित एक दिवसीय कांफ्रेंस में भाग लिया।

महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया।

राजकीय महिला महाविद्यालय मुरथल द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत किया।

शहीद दलवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय खरखोदा के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत किया।

शहीद भगत सिंह सांध्य कॉलेज द्वारा आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया।

Biz quiz प्रतियोगिता द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया।

आपने दो दिवसीय एफ डी पी में भाग लिया जिसका आयोजन यू.जी. सी. द्वारा किया गया था।

श्रीमती गीता शर्मा सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान

आपने 31 अगस्त, 2019 को एसजीटीबी खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया। जिसका संयोजन ई कंटेंट मुक्स स्वयं एंड एआरपी आईटी और ए आई सी टी ई व गुरु अंगद देव टीचिंग लर्निंग सेंटर ऑफ एमएचआरडी द्वारा किया गया।

आपने 23-24 नवंबर 2019 को मनोविज्ञान विभाग, मेरठ महाविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में इंफैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पर्सनल रिलेशनशिप विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

श्री प्रदीप कुमार सहायक प्राध्यापक हिंदी

आपने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमन सेक्टर 14, गुरुग्राम द्वारा 18 जनवरी, 2020 को आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में 'साहित्य की स्त्री दृष्टि' विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

आपने राजकीय महाविद्यालय हथिन, पलवल द्वारा 27 जनवरी, 2020 को आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका' विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

आपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश द्वारा 17 से 23 जून 2020 को आयोजित सात दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया।

आपने रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 26 जून से 24 जुलाई, 2020 की अवधि में आयोजित 'ओरियंटेशन प्रोग्राम' में प्रतिभागिता की व सफलतापूर्वक इसे पूर्ण किया।

आपने मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल द्वारा 12 जून, 2020 को राष्ट्रीय वेबिनार में 'साहित्य इतिहास की अध्ययन प्रक्रिया' विषय पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में प्रतिभागिता की।

आपने 14 जून, 2020 को दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभागिता की जिसका विषय 'चेजिंग लैंडस्केप एंड मीडिया लिटरेसी' रहा।

आपने हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 18 जून, 2020 को आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया, जिसका विषय 'धरती का धनी रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु' था।

श्री जगबीर सिंह सहायक प्राध्यापक भूगोल

आपने 22 फरवरी, 2020 को श्रीमती अनीता राणा के साथ मिलकर मनोविज्ञान विभाग, शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय खरखोदा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ डिजीजीज विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

महाविद्यालय की आवश्यकताएं

किसी भी गतिशील संस्था के विकास के लिए आवश्यकताओं का होना स्वभाविक है। अतः महाविद्यालय की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। जो निम्न प्रकार है -

1 विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हमारे महाविद्यालय में आधारभूत आवश्यकताओं की कमी है।

2 विज्ञान की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। महाविद्यालय में विज्ञान संकाय होने से आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को या तो विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है या उससे वंचित रहना पड़ता है। हमारे महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की आवश्यकता है ताकि आसपास के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल सके।

3 मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के विभिन्न अंगों की शिक्षा को आरंभ करना भी महाविद्यालय की एक मुख्य आवश्यकता है।

4 स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में खेल के मैदान की आवश्यकता है।

5 महाविद्यालय में पार्किंग की सुविधा की आवश्यकता है।

6 महाविद्यालय में विद्यार्थियों व स्टाफ सदस्यों के लिए जलपान गृह की भी आवश्यकता है।

7 महाविद्यालय में विद्यार्थियों के आवागमन को सरल बनाने के लिए बस स्टॉप की आवश्यकता है।

अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय दिनोंदिन उच्च दिशा में प्रगति कर रहा है। इसी के उदाहरण स्वरूप महाविद्यालय में 2019-20 में प्राचार्य श्रीमती नीरजा सांगवान जी के नेतृत्व में महाविद्यालय में पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का कुशल रूप से आयोजन किया गया। महाविद्यालय के लगातार प्रगति में महाविद्यालय परिवार (शिक्षण एवं गैर शिक्षण) स्टाफ सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आशा है कि महाविद्यालय के कर्मठ व सहयोगी स्टाफ सदस्यों के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप महाविद्यालय भविष्य में भी इसी तरह प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा।
धन्यवाद।

श्रीमती नीरजा सांगवान

प्राचार्य

एसडीएस राजकीय महाविद्यालय खरखोदा, सोनीपत